



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 250) पटना, वृहस्पतिवार, 6 मार्च 2014

सं0 3ए-2-वे0पु0-10/2012—2099-वि0
वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक 04 मार्च 2014

विषय:- दफ्तरी एवं उच्चतर पदों के वेतनमान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन चतुर्थवर्गीय (वर्तमान में समूह 'घ') कर्मचारियों की कोटि में आदेशपाल/चपरासी/कार्यालय परिचारी आदि का पद मूल कोटि का पद है । इस पद से पढ़े-लिखे योग्य कर्मियों को दफ्तरी/अभिलेखवाह या ट्रेजर सरकार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है ।

2. दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से मूल कोटि तथा प्रोन्नति के उपर्युक्त पदों का वेतनमान निम्नवत् स्वीकृत किया गया था:-

मूल कोटि-	आदेशपाल/चपरासी/कार्यालय परिचारी-	2550-3200
	दफ्तरी-	2610-3540
	अभिलेखवाह-	2650-4000
	ट्रेजरी सरकार-	2750-4400

3. दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा निम्न प्रकार से वेतन पुनरीक्षण किया गया:-

आदेशपाल/चपरासी/कार्यालय परिचारी-	1एस0-1300
दफ्तरी-	1एस0-1400
अभिलेखवाह-	1एस0-1650
ट्रेजरी सरकार-	पी0बी0-1+1800

4. केन्द्रीय अवधारणा को अंगीकृत करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 2937, दिनांक 31/03/2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समूह-घ के वैसे कर्मी जो मैट्रिक उत्तीर्ण हैं, उनके लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में पी0बी0-1+1800 और जो मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं हैं उनके लिए 1एस0-1650 का वेतनमान अनुमान्य होगा। पुनः यह भी प्रावधान किया गया कि नन मैट्रिक कर्मी यदि विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भी पी0बी0-1+1800 का वेतनमान अनुमान्य होगा। इन मैट्रिक उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित समूह 'घ' के कर्मियों द्वारा फोटो कॉपीयर, टेलीफोन ऑपरेटर तथा दफ्तरी/अभिलेखवाह/ट्रेजरी सरकार का कार्य किया जाना है।

5. समूह 'घ' के मैट्रिक पास कर्मियों का मूल कोटि का वेतनमान पी0बी0-1+1800 हो जाने की स्थिति में उपर्युक्त प्रोन्नति के पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतनमान का संशोधन सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

6. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा दफ्तरी के लिए पी0बी0-1+1900, अभिलेखवाह के लिए पी0बी0-1+2000 एवं ट्रेजरी सरकार के लिए पी0बी0-1+2400 के वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह संशोधित वेतनमान सिर्फ उन कर्मियों के संदर्भ में लागू होगा जो इस आदेश निर्गत के पूर्व से प्रोन्नति के फलस्वरूप उपर्युक्त पदों को धारित करते हैं। दफ्तरी, अभिलेखवाह एवं ट्रेजरी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य अब मैट्रिक की योग्यता रखने वाले कर्मियों में से सुयोग्य कर्मियों द्वारा किया जा सकेगा। प्रोन्नति के पद के रूप में इन पदों को मरणशील घोषित किया जाता है। जो कर्मी इन पदों पर कार्यरत हैं उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इन पदों पर प्रोन्नति नहीं की जाएगी।

7. वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा इन पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन,
प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 250-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>